



Date: November 08, 2025

CIN: L65100DL1994PLC061287

Letter No. FFL/SEC/2025-26/SE-82

The Manager	The Manager
Listing Department	Listing Department
National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block	Phiroze Jeejeebhoy Towers
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	Dalal Street, Mumbai - 400 001
Scrip Code: FUSION, FUSIONPP	Scrip Code: 543652, 890214

Subject: Newspaper Advertisement – Record date for first and final call on partly paid-up rights equity shares of the Company

Please find attached the copy of the Newspaper Advertisement published by the Company today, i.e. November 8, 2024, in connection with record date for first and final call on partly paid-up rights equity shares of the Company, in all editions of Financial Express, (English newspaper), and in all editions of 'Jansatta', (Hindi newspaper).

The copy of the same is also available on the website of the company at www.fusionfin.com.

We request you to take the information on record.

Thanking you.

Yours truly,

For Fusion Finance Limited (Formerly known as Fusion Micro Finance Limited)

VIKRANT SADANA Digitally signed by VIKRANT SADANA Date: 2025.11.08 17:08:28 +05'30'

Vikrant Sadana

Company Secretary and Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS



FUSION FINANCE LIMITED

(Formerly Fusion Micro Finance Limited)

Registered Office: H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi, 110028, India Corporate Office: Plot No. 86. Institutional Sector 32. Gurugram.

Haryana 122001, India | Tel: +91- 011-46646600/ +91-124-6910500 Contact Person: Vikrant Sadana, Company Secretary and Compliance Officer E-mail: investor.relations@fusionfin.com | Website: www.fusionfin.com Corporate Identity Number: L65100DL1994PLC061287

NOTICE FOR RECORD DATE FOR FIRST AND FINAL CALL ON PARTLY PAID-UP RIGHTS EQUITY SHARES OF THE COMPANY

The Board of Directors of the Company ('the Board') at its meeting held on Tuesday, November 04, 2025, has approved making of the first and final call of ₹ 65.50 per equity share (comprising ₹5.00 towards face value and ₹60.50 towards premium) ("First and Final Call"), on outstanding partly paid-up equity shares of face value of ₹10 each, issued by the Company on a rights basis, pursuant to its Letter of Offer dated March 29, 2025

The Board has fixed Tuesday, November 11, 2025, as the record date for the purpose of determining the holders of such partly paid-up equity shares having ISIN IN9139R01028 to whom the First and Final Call notice will be sent. The intimation of the said Record date has also been disseminated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed.

Further, details in relation to the First and Final Call, will be included in the First and Final Call notice, which will be dispatched in due course.

> For, FUSION FINANCE LIMITED (Formerly Fusion Micro Finance Limited)

Date: November 7, 2025 Place: Gurugram

Vikrant Sadana Company Secretary and Compliance Officer

DEVELOPMENT AUTHORITY Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

No:- JDA/EE & TA to Dir. Engg.-I/2025-26/ Date: 07.11.2025

NOTICE INVITING BID

NIB No.: EE & TA to Dir. Engg.-1/32/2025-26

Bids are invited from interested bidders for following works: -

S. No.	UBN No.	Nature of Work	Last Date		
-	JDA2526WSRC00479	285.34	Construction of Recharge Tank (RC)	01.12.2025	
2	JDA2526SLRC00481	305.00	Survey	25.11.2025	

Other particulars of the respective bid may be visited on Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in. www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.rajasthan.gov.in.

TA to Dir.Engg-I Raj.Samwad/C/25/13422

Executive Engineer &

FORCE MOTORS LIMITED CIN L34102PN1958PLC011172

Regd. Office: Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035, INDIA.

KEY CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION:

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30 SEPT. 2025.

		CONSOLIDATED (₹ IN LAKHS)						
2 3 4 5	Particulars	Quarter ended 30 Sept. 2025 (Unaudited)	Half year ended 30 Sept. 2025 (Unaudited)	Quarter ended 30 Sept. 2024 (Unaudited)				
1	Total Income from Operations	2,08,140	4,37,865	1,94,133				
2	Net Profit before Tax and Exceptional items	31,718	59,489	21,148				
3	Net Profit before Tax and after Exceptional items	31,718	59,489	21,148				
4	Net Profit after Tax	35,070	52,706	13,505				
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	34,716	52,564	13,427				
6	Equity Share Capital	1,318	1,318	1,318				
7	Other Equity (as shown in the Audited Balance Sheet of the		3,02,025					

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION:

8 Earnings Per Share (Face value of ₹10/- per Share)

Basic and Diluted Earnings Per Share (not annualised) (in ₹)

previous year)

		ST	STANDALONE (₹ IN LAKHS)						
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30 Sept. 2025 (Unaudited)	Haif year ended 30 Sept. 2025 (Unaudited)	Quarter ended 30 Sept. 2024 (Unaudited)					
া	Total Income from Operations	2,08,127	4,37,839	1,94,120					
2	Net Profit before Tax and Exceptional items	31,595	60,249	21,707					
3	Net Profit before Tax and after Exceptional items	31,595	60,249	21,707					
4	Net Profit after Tax	34,951	53,473	14,068					
5	Total Comprehensive Income (after Tax)	34,597	53,330	13,990					

266.14

The above information has been extracted from the detailed Quarterly Financial Results, which have been reviewed by the Audit Committee, approved by the Board of Directors, subjected to a limited review by the Statutory Auditors and filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website at www.forcemotors.com. The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.



For and on behalf of the Board of Directors

399.96

102.46

PRASAN ABHAYKUMAR FIRODIA Managing Director



www.forcemotors.com

Crompton

Crompton Greaves Consumer Electricals Limited

CIN: L31900MH2015PLC262254

Registered & Corporate Office: 05GBD, Godrej Business District, Pirojshanagar, Vikhroli (West), Mumbai 400079. India Tel.: +91 7304575254

E-mail: crompton.investorrelations@crompton.co.in Website: www.crompton.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2025 (₹ crore)

9							((01010)
			CONSOLIDATED	ν	-	STANDALONE	50
Sr.	Particulars	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ende
No.	Particulars	30-09-2025	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2025	30-09-2025	30-09-2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total income	1,928.96	3,951.01	1,913.53	1,647.61	3,488.36	1,660.83
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	122.56	288.65	170.74	114.43	282.34	164.59
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	102.20	268.29	170.74	94.07	261.98	164.59
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	75.42	199.32	128.07	70.10	195.25	123.28
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	75.93	199.79	128.09	70.27	195.59	123.42
6	Paid-up Equity Share Capital	128.78	128.78	128.73	128.78	128.78	128.73
7	Other equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	3,261.37 (as on 31-03- 2025)	(as on 31-03-	,	(as on 31-03-	(as on 31-03-	(as on 31-03
8	Earnings Per Share (of ₹ 2 each) Basic (in ₹) Diluted (in ₹)	1.11* 1.11*	3.00* 3.00*	1.94* 1.94*			

*(Not annualised)

Place : Mumbai

Date: November 06, 2025

#Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, which ever is applicable.

The above is an extract of the detailed format of quarterly/ annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/ annual financial results are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the Company's website i.e. www.crompton.co.in. The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



For and on behalf of **Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Promeet Ghosh** Managing Director & CEO DIN: 05307658

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS IS A CORRIGENDUM ADVERTISEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE. PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES.



view the RHP)

An ESO 9001-2015 certified company MAHAMAYA LIFESCIENCES LIMITED

Our Company was originally incorporated as a private limited Company under the name of "Maharmaya Life Sciences Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 and certificate of incorporation was issued by the Assistant Registrar of Companies, NCT of Delhi & Harvana, on May 07, 2002. Further, our Company name was changed from "Mahamaya Life Sciences Private Limited" to "Mahamaya Lifesciences Private Limited" and a fresh certificate of Incorporation dated February 15, 2016 was issued by the Registrar of Companies. Delhi, Moreover, a special resolution was passed at the Extra-Ordinary General Meeting of our Company held on October 29, 2024 for conversion of our Company into a public limited Company and the name of our Company was changed from "Mahamaya Lifesciences Private Limited" to "Mahamaya Lifesciences Limited". A fresh certificate of incorporation consequent to change of name was issued by the Registrar of Companies, Delhi on November 19, 2024. The Corporate Identity Number of our Company is U24233DL2002PLC115261

Registered Office: Unit No: DPT - 033, Ground Floor, Plot No: 79 - 80, DLF Prime Tower, F - Block, Okhla, Phase - 1, New Delhi - 110020, India; Corporate Office: 369, 370, 370A & 370B, 3rd Floor, Tower B-1, Spaze (Tech Park, Sector-49, Sohna Road, Gurugram 122018; Contact Person: Ms. Shilpi Bhardwaj, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91-1146561474 E-mail: cs@mahamayalifesciences.com Website: https://www.mahamayalifesciences.com/

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 61,78,800* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF MAHAMAYA LIFESCIENCES LIMITED ("MLL" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT PRICE OF ₹ [+] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF [+] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE"). AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS ("THE OFFER"), COMPRISING A FRESH OFFER OF UPTO 56,38,800* EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS (THE "FRESH OFFER") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 5,40,000* EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AGGREGATING UP TO ₹ [+] LAKHS ("OFFER FOR SALE") COMPRISING OF 3,70,000* EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [+] LAKHS BY KRISHNAMURTHY GANESAN AND 1,70,000* EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [+] LAKHS BY LALITHA KRISHNAMURTHY (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS") OUT OF WHICH 3,09,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [+] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ [+] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET OFFER OF 58,69,200* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [*] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.40% AND 25.08% RESPECTIVELY OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

* Subject to finalization of basis of allotment

CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS

This Corrigendum is with reference to the Red Herring Prospectus ("RHP") dated October 28, 2025 filed by Mahamaya Lifesciences Limited ("Company") with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Registrar of Companies Delhi ("RoC"), and BSE Limited in connection with its proposed Initial Public Offer. Investors are hereby informed that the following inadvertent omissions have been noticed in the RHP under the section titled "Offer Structure" in the table detailing Particulars of the Offer Structure on Page No. 313 of the RHP in the row titled "Minimum Bid Size" and "Maximum Bid Size" under the column "QIBs", "Non-Institutional

Particulars	Market Maker Reservation Portion	QIBs	Non - Institutional Investors/Bidders	Individual Investors/Bidders		
Minimum Bid Size	OF WELLER WOODS & CORPLESSES	multiples of [•] Equity Shares that the Bid Amount exceeds ₹ 2.00 Lakhs and is for more than two lots	multiple of [•] Equity shares that Bid Amount exceeds ₹ 2.00 Lakhs and is for more than two lots			
Maximum Bid Size		multiples of [*] Equity Shares not exceeding the size of the Net Offer,	multiples of [•] Equity Shares not exceeding the size of the Net Offer (excluding the QIB portion), subject to	Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares so that the Bid Amount exceeds ₹2.00 Lakhs and not more than two lots		

The RHP shall be read in conjunction with this Corrigendum. The information provided in this Corrigendum supersedes the information in the RHP Accordingly. Pre-Offer Advertisement for Price Band, Abridged prospectus, application forms and all issue related stationery shall stand modified to the extent of the changes specified herein, and their references in the Prospectus shall be deemed to have been amended pursuant to this Corrigendum. Relevant changes will be reflected in the Prospectus, as and when filed with the RoC, SEBI and the BSE Limited. All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the meaning as ascribed to them in RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER

Investors/Bidders" and "Individual Investors/Bidders", and are hereby corrected in the table below

Oneview Corporate Advisors Private Limited

Address: The Summit Business Bay, 619 & 620, 6th Floor, 266/1-172, Gundavali, Andheri Kurla Road,

Andheri (East), Mumbai - 400 093 Tel: +91 - 22 - 6901 0381 Email: mbd@oneviewadvisors.com

Investor Grievance Email: investorgrievance@oneviewadvisors.com

Website: www.oneviewadvisors.com Contact Person: Alka Mishra

ANCHOR INVESTOR BID/OFFER PERIOD:

MONDAY, November 10, 2025

SEBI Registration No: INM000011930

REGISTRAR TO THE OFFER

KFin Technologies Limited

Address: Selenium Tower B, Plot No-31 & 32, Financial District, Nanakramguda , Serilingampally Hyderabad Rangareddi TG 500032 Tel: +91-40-67162222

Website: www.kfintech.com Email: mahamaya.ipo@kfintech.com; compliance.corp@kfintech.com

Investor Grievance ID- einward.ris@kfintech.com Contact Person: M. Murli Krishna SEBI Registration Number: INR000000221

BID/OFFER PROGRAMME BID/OFFER OPENS ON: BID/ OFFER CLOSES ON: TUESDAY November 11, 2025 THURSDAY, November 13, 2025

For Mahamaya Lifesciences Limited On behalf of Board of Directors Krishnamurthy Ganesan

Managing Director

DIN: 00270539

Place: Delhi Date: November 07, 2025

Disclaimer: Mahamaya Lifesciences Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a RHP dated October 28, 2025 with the RoC. The RHP is available on the websites of the Stock Exchange i.e. BSE at www.bseindia.com and is available on the websites of the BRLM i.e. Oneview Corporate Advisors Private Limited at www.oneviewadvisors.com and the website of the Company at https://www.mahamayalifesciences.com/. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see section "Risk Factors" beginning on page 31 of the RHP. Potential investors should not rely on RHP filed with Stock Exchange for making any investment decision. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, as amended (the "U.S. Securities Act") or any other law of the United States, and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the

NEOGROWTH

Lending simplified. Growth amplified.

registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws.

NeoGrowth Credit Private Limited

CIN No-U51504MH1993PTC251544 Regd Office: Times Square, Tower E, 9th Floor, Andheri-Kurla Road,

Marol, Andheri East, Mumbai-400059

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025 (₹ in Crores)

		Quarte	rended	Half yea	Year ended		
Sr. No.	Particulars	September 30, 2025	September 30, 2024	September 30, 2025	September 30, 2024	March 31, 2025	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total income from operations	150.67	197,12	316.19	384.90	749.01	
2	Net Profit / (Loss) for the period / year before Tax	(31.81)	6.60	(58.45)	17.65	12.12	
3	Net Profit / (Loss) for the period / year after Tax	(23.84)	4.93	(43.82)	13.17	9.02	
4	Total Comprehensive Income for the period / year [Comprising Profit / (Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(20.58)	7.32	(40.15)	15.81	11.51	
5	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹10/- Per Share)	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	
6	Outstanding Compulsory Cumulative Convertible Preference Shares	75.37	75.37	75.37	75.37	75.37	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	(120.40)	(75.28)	(120.40)	(75.28)	(77.66)	
8	Securities Premium	664.58	664.58	664,58	664.58	664.58	
9	Net worth'	637.56	682.67	637.56	682.67	680.29	
10	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	1,803.72	2,347.11	1,803.72	2,347.11	2,142.29	
11	Debt Equity Ratio ²	2.83	3.44	2.83	3.44	3.15	
12	Earnings Per Share (₹) (Face Value of ₹10/- each)	26.36260-5	V110001	#U0000000000	anacountar:	ASALON.	
	- Basic (not annualised)	(2.55)	0.53	(4.69)	1.41	0.97	
	- Diluted (not annualised)	(2.55)	0.53	(4.69)	1.41	0.96	

- Diluted (not annualised) (2.55)Net worth is derived as Equity presented by Company, minus other comprehensive income.

Debt-equity Ratio = Outstanding Debt / Net worth

Capital Redemption Reserve, Debenture Redemption Reserve, Debt Service Coverage Ratio & Interest Service Coverage Ratio is not applicable

- 1. The above is an extract of the detailed format of quarter ended and half year ended unaudited financial results filed with the BSE Limited in accordance with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations, 2015') and the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable. The full format of financial results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.neogrowth.in). For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosure has been made to the BSE Limited and can
- be accessed on website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.neogrowth.in), 2. The above financial results of the Company are reviewed and recommended by the Audit Committee on November 05, 2025 and have been
- approved by the Board of Directors at its meeting held on November 06, 2025. 3. The Company's operating segments are evaluated by the Chief Operating Decision Maker as defined in Ind AS 108 - 'Operating Segments'. The Company operates in a single reportable segment i.e. financing, since the nature of the loans are exposed to similar risk and return profiles hence they are collectively operating under a single segment. The Company operates in a single geographical segment i.e. domestic.
- Previous year's / period's figures have been re-classified where appropriate to current year's / period's presentation.
- 5. All the secured non-convertible debentures of the Company as on September 30, 2025 are fully secured by exclusive first charge on certain identified receivables of the Company to the extent stated in the respective Information Memorandum / Security Documents. Further, the Company has maintained sufficient asset cover to discharge the principal amount, interest accrued thereon and such other sums as mentioned therein, as per the respective Information Memorandum / Security documents.

On behalf of the Board of Directors

Arun Nayyar Managing Director & CEO DIN: 06804277

Adfactors 580/25

epaper.financialexpress.com

Date: November 6, 2025

Place: Mumbai

प्ररूप संख्या आइएनसी-26 किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4)

पोलोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 310. ततीय तल. प्रताप कॉम्प्लेक्स जी92, प्रताप मार्केट, मुनिरका, नई दिल्ली, भारत - 110067 में है, के संबंध में।

और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

ठप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

हाम जनता को सुचित किया जाता है कि वह कंपनी अपन जीकृत कार्यालय "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" र "**ओडिशा राज्य"** में स्थातरित करने के लिए कंपनी व सधम बनाने के लिए गुरूवार, 6 नवंबर, 2025 क क्षयोजित असाधारण आमें बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के धनुसार कंपनी मेनोरींडम ऑफ एसोसिएशन के झापन में परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की बारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आग्रेदन करने का प्रस्ताव करती

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीवृत कार्पालय व प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक रेकावत फॉर्म भरकर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के क्षाधार बताते हुए एक हलकलामें के साथ अपनी आपसियों को पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पते बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई बिल्ली-110003 पर इस नोटिस व प्रकाशन की तिथि से (14) चौदाह दिनों के मीतर मेज सकता है और ज़सकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके लोक्त कार्यलय के मां 310, तूतीय तल, प्रताप कॉम्प्लेक्स जी92, प्रताप मार्केट, मुनिरका, नई दिल्ली, भारत - 110067 पर मी भेजनी होंगी।

आवेदक की और र पोलोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड रथान : गुवनेश्वर (शांति भूषण मिश्रा) निदेशक दिनांक : 7 नवंबर, 2025 डीआईएन: 07584357

प्ररूप संख्या आइएनसी-26 किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष,

चप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में, बडाबाजार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय **एल-डी-60, पीतमपुरा,**

दिल्ली, भारत, 110088 में है, के संबंध में।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4

और कंपनी (निगमन) निवम, 2014 के निवम 30 के

शम जनता को सुचित किया जाता है कि वह कंपनी अप जिकत कार्यालय दिक्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" र 'हरियाणा राज्य'' में ख़्यातरित करने के लिए कंपनी क सक्षम बनाने के लिए **मुख्यार, 6 नवंबर, 2025** क गवोजित असाधारण आम वेठक में पारित विशेष प्रस्ताव मनसार कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के झापन परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव

कोई भी व्यक्ति जिसका हिए कंपनी के पंजीवत कार्यालय कं ारतावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मर निवतव तकति और विशेध के आधार बताते हुए एक हलकनामें के साथ भंपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र कॉपीरेट मामलों के मंत्रालय के पते बी-2 विंग द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 पर इर नाटिस के प्रकाशन की तिथि से **(14) चीदह दिनों** के मीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसक वंजीकृत कार्यालय के पते **एलडी-60, पीतमपुरा, दिल्ली**, भारत - 110088 पर मी मेजनी होगी। आवेदक की ओर र

बडाबाजार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड सुरेंद्र अग्रवाह दिनांक : 7 नवंबर, 2025 निदेशक डीआईएनः 00731433 स्थान । गुरुग्राम

"प्रपन्न सं. आईएनसी--26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में). केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निर्देशक के समक्षा उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

मैसर्स वरच्यू फाइनैंस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 20, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली-110002 में स्थित है

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की घारा 12 और 13 और अन्य लागू प्रावधनों, यदि कोई हो, के तहत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, चत्तरी क्षेत्र, कॉपॉरेट मामलॉ के मंत्रालय, गई दिल्ली को आवेदन करने का प्रस्ताव करती, है जिसमें 25 सितम्बर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम बेठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की जाती है ताकि कंपनी को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम

कंपनी के पंजीकृत कार्यलय के प्रस्तावित स्थानांतरण ते यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हिंत का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे वर्णित धंजीकृत कार्यालय के पत पर भी भेजेगा।

20, अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली-110002 कृत्ते आवेदक की ओर से वरच्यु फाइनेंस लिमिटेड (दयानंद सिंह)

दिनाक: 07.11.2025 निदेशक डीआईएन : 00396328 स्थान : नई दिल्ली

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केनरा बैंक Canara Bank 📣 केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंजित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉन्प्लेक्स, नई विल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

fittisisz Syndicate

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन (एआरएम) ।। शाखा, ए-27, प्रथम तल, होज खास, **बई दिल्ली**- 110016 ईमेल : cb3038@canarabank.com

बिक्री सुचना

बिक्री सूचना

एतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/दृष्टिबंधक है और जिसका कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत ई—नीलामी के माध्यम से नीचे उल्लिखित तिथियों पर **"जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है"** के

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया प्रदाता (मैसर्स पीएसबी एलायंस (Baanknet.com), (संपर्क संख्या 8291220220, ईमेल : support.BAANKNET@psballiance.com) या केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर दिए गए लिंक "ई-नीलामी" देखें। आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत अग्रिम राशि (ईएमडी) https://baanknet.com पोर्टल के ई-वॉलेट में सीधे जमा की जानी है या चालान जनरेट करके उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से अग्रिम राशि जमा की जानी है।

उधारकर्ता / गारंटर	अचल संपत्ति का	कुल देयताएँ (रू.) : आरक्षित मूल्य (रू.) :	नीलामी की तिथि और समय	000
का नाम और पता	संक्षिप्त विवरण	धराज (रू.) :	संपर्क व्यक्ति	i
		वृद्धि राशि (रू.)	का नाम	
उधारकर्ता/गणः नेसर्स पयूकॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	पंजाबी बाग वेयरहाउस में विद्यमान स्टॉक जो मैसर्स फ्यूकॉन टेक्नोलॉजीज	रू. 24,71,30,600.05 तिथि 31.12.2023 तक	28.11.2025 को अप. 12:30 से 01:30 बजे के	8
पंजीकृत कार्यालय : 71 / 4, शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर, नई दिल्ली— 110015	लिमिटेड के नाम से है (स्क्रैंप, जिसमें	रू. 56,700/-	मध्य (5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित	
गता यहां पर भी :	ब्रांडेड कार रखरखाव और सफाई के स्प्रे	रू. 5,670/- ईएमडी	विस्तार के साव)	
यूनिट संख्या : 310—311 हब टाउन, विवा, डब्ल्यू.ई. हाईवे, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई 400060	और सॉल्यूशन, वेंटिलेटेड सीट कवर्स, सोलर एग्जॉस्ट फैन, ताले, प्लास्टिक की	27.11.2025 को सायं 5.00 बजे तक जमा होनी चाहिये	श्री मनोज कुमार (प्राधिकृत अधिकारी),	
भ्रीमती गुरमीत वर्मा (निदेशक / गारंटर) पत्नी श्री धकम पाल वर्मा	बोतलें, सभी थोक मात्रा में शामिल हैं)	ন্থ. 5,000	मोबाइल नंबर 8826933887 और, वैभव अग्रवाल (अधिकारी)	

(स्टॉक बैंक के भौतिक कब्जे में है)

मोबाइल नंबर 9811237992 कृते केनरा बैंक प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, (विद्युत/यांत्रिक विंग), उ.प्र. जल निगम (नगरीय), आर-16, नेहरू इन्क्लेव गोमती नगर, लखनऊ

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम) पत्रांक: 2137/6901/विविध -3/(25)/536 दिनांक 07.11.2025

अल्पकालीन निविदा सूचना 30प्र0 जल निगम की ओर से जनपद लखनऊ में 1 नग नलकूप निर्माण हेतु 300x200

मि०मी० व्यास के एम०एस०ई० आर०डब्लू० 7.1 एम०एम० मोटाई पाइप एवं पी-ग्रेविल की आपूर्ति हेत निविदाओं की बिक्री दिनांक 10.11.2025 से 17.11.2025 तक कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर. निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, वि0/वां0 विंग, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), आर-16, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ एवं कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, वि0/यां0 विंग-द्वितीय, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से की जायेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 1000.00 + 18% जी.एस.टी. (1000.00) + 180.00 = 1180.00) है। निविदा के कार्यों का विस्तृत विवरण जल निगम की वेबसाइट WWW.UPJN.ORG से अथवा सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा सूचना:-निविदा विक्रय की तिथि - 10.11.2025 १७.११.२०२५ अपराह ०३:०० बजे तक। निविदा डालने की तिथि - 18.11.2025 अपराह

निविदा खोलने की तिथि - 19.11.2025 अपरा 03:30 बजे तक।

03:00 बजे तक।

"प्रपत्र सं. आईएनसी—26" (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) | केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

मैसर्स युनिक फिनमैन कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 207, वर्धमान टॉवर प्रीत विहार, नियर सीबीएसई दिल्ली-110092 में स्थित है

आम जनता को सुबित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमी की धारा 12 और 13 और अन्य लागू प्रावधनों, यदि कोई हो, के तहत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली। को आवेदन करने का प्रस्ताव करती, है जिसमें 21 सितम्बर, 2025 को आयोजित पार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में परिवर्तन की पृष्टि की मांग की जाती है ताकि कंपनी को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य' में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत वर्ज कर सकता है या एक शमध क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख़ से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 पर्त पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके नीचे वर्णित पंजीकत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। 207. वर्धमान टॉवर ग्रीत विहार

नियर सीबीएसई दिल्ली-110092 कृतो आवेदक की ओर से यनिक फिनमैन कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड दिनांक : 07.11.2025 निदेशक

ढीआईएन : 07983028 "प्रपन्न सं. आईएनसी—26" (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निवेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 13 की उपवास (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (नियमन) नियम,

2014 के नियम 30 के उपनियम (5) मैसर्स फेम क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : ए~57, तीसरा फ्लोर, कैलाश कॉलॉनी, नई दिल्ली-110048 में रिवत है

प्राम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी प्रविनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की पारा 12 और 13 और अन्य लागू प्रावधनों, यदि कोई हो, के तहत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉपॉरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली। को आवेदन करने का प्रस्ताव करती, है जिसमें 28 सितम्बर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में परिवर्तन की पृथ्टि की मांग की जाती है ताकि कपनी को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम बनाचा जा सकें।

कंपनी के पंजीकत कार्यलय के प्रस्तायित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उठिलखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निवेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सुधना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पत्ते पर भी मेजेगा।

ए-57, तीसरा प्लोर, कैलाश कॉलोनी. नर्ड दिल्ली-110048 कृते आवेदक की ओर से फॅम किएशन्स प्राईवेट लिमिटेड शिखर अग्रवाल

दिनांक : 07.11.2025

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक

बीआईएन : 08628490

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, (विद्युत/यांत्रिक विंग), उ.प्र. जल निगम (नगरीय), (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम. आर-16, नेहरू इन्क्लेव

गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) पत्रांक: 2138/6901/विविध -3/(25)/537 दिनांक 07.11.2025

अल्पकालीन निविदा सूचना उ०प्र० जल निगम की ओर से जनपद लखनऊ में 1 नग नलकृप का कम्प्रेशर एवं ओ०पी० युनिट से विकास कार्य हेत् निविदाओं की बिक्री दिनांक 10.11.2025 से 17.11.2025 तक कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, वि०/यां० विंग, यूनिट उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), आर-16, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ एवं कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, कंपनी के फंडीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से

वि0/यां0 विंग-द्वितीय, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, नखनऊ से की जायेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु० 1000.00 + 18% जी.एस.टी. (1000.00 + 180.00 = 1180.00) है। निविदा के कार्यों का विस्तृत विवरण जल निगम की वेबसाइट WWW.UPIN.ORG से अथवा सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा सूचनाः-निविदा विक्रय की तिथि - 10.11.2025 से

१७.११.२०२५ अपराह्र ०३:०० बजे तक। निविदा डालने की तिथि - 18.11.2025 अपराह 03:00 बजे तक। निविदा खोलने की तिथि - 18.11,2025 पूर्वाह

"प्रपन्न सं. आईएनसी—26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समझ उत्तरी क्षेत्र

भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

(4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम

2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

मैसर्स दिव्या बिल्डमार्ट प्राईवेट लिमिटेड

मील. 16 मंगलम प्लेस, डिस्टिक्ट सेंटर, सेक्टर-3

आम जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी

अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम

की धारा 12 और 13 और अन्य लाग् प्रावधनों, यदि

कोई हो, के तहत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

को आवेदन करने का प्रस्ताव करती, है जिसमें 2

सितम्बर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में

पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन

में मरिवर्तन की पृष्टि की मांग की जाती है ताकि

कंपनी को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिख्ली' से 'हरियाण

राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम

कंपनी के पंजीवन कार्यालय के प्रश्तावित ख्यानांतरण

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह

व्यक्तिया तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर

कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)

में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शयश

का कारण विकिथित हो के साथ अपनी आपनि

की तारीख़ से 14 दिनों के मीतर बी-2 विंग, द्विती

कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकत

इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके नीचे वर्णित

शॉप नं. 26, एम2के मॉल, 16 मंगलम प्लेस, डिस्टिक्ट

सेंटर, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085

कत्ते आवेदक की ओर र

डाआईएन : 07983028

हस्ता /

निवेशक

दिच्या बिल्हमार्ट प्राईवेट लिमिटे

"प्रपन्न सं. आईएनसी-26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र,

बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनद्रयाल अत्योदय

भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, गई दिल्ली-110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

(4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

मेससे प्रहलाद सप्लायसे प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : शॉप न. 25, एम2कं

मॉल, 16 मंगलेग प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर-3,

आम जनता को सुवित किया जाता है कि कंपनी

अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों

की धारा 12 और 13 और अन्य लागू प्रावधनों, यदि

कोई हो, के तहत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली

को आवेदन करने का प्रस्ताय करती, है जिसमें 30

सितम्बर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में

पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन

में परिवर्तन की पृष्टि की मांग की जाती है ताकि

कंपनी को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा

राज्य' में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह

व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर

कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)

में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ

पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध

का कारण उठिलखित हो के साथ अपनी आपत्ति

क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन

की लारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 बिंग, डितीय

तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ

कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत

डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और

इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके नीचे वर्णित

शॉप नं, 25, एम2के मॉल, 16 मंगलम प्लेस, विस्टिक्ट

सेंटर, सेक्टर-3, रोडिणी, दिल्ली-110085

कुत्ते आवेदक की ओर से

डीआईएन : 05236946

(गोविंद हरभजनका)

हरता /

निदेशक

प्रहलाद संप्लायम् प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय के पत्ने पर भी मेजेगा।

दिनांक : 07.11.2025

स्थान : दिल्ली

बनाया जा सके।

रोडिणी, दिल्ली-110085 में स्थित है

पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

विनाक: 07.11,2025

"प्रपन्न सं. आईएनसी—26" कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित वीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली--110003

मैसर्स शीतलनाथ प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकत कार्यालय : शॉप न, ३१ए, एम2के मॉल, 16 मंगलम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सॅटर, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित है

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपवारा

2014 के नियम 30 के तपनियम (5)

आम जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और ससके तहत बनाए गए नियमी की धारा 12 और 13 और अन्य लागू प्रावधनों, यदि कोई हो, के तहत केंद्र सरकार, धीत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉपॉरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली सिसम्बर, 2025 को आयोजिल वार्षिक आग बैठक मे पारित विशेष प्रस्ताय के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की जाती है लाकि। कंपनी को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली" से 'हरियाण राज्य' में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत जाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

शॉप नं. ३१ए, एम2के मॉल, १६ मंगलम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085 कुले आवेदक की ओर से शीतलनाथ प्रीपटील प्राईवेट लिमिटेज

(विगंत गोयल) दिनांक : 07.11.2025 निदेशक बीआईएन : 07983028

स्थान : दिल्ली 'प्रपत्र सं, आईएनसी—26' (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निवेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विम, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय

2014 के नियम 30 के उपनियम (5) मैसर्स एम्पल होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड जेसका पंजीकृत कार्यालय : 4637 / XI, ऑफिस • 316, तींसरा फेलोर, हरी सदन, अंसारी रोड, नियन

आम जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम की धारा 12 और 13 और अन्य लागू प्रावधनों, यवि कोई हो, के तहत केंद्र सरकार क्षेत्रीय निवेशक उत्तरी क्षेत्र, कॉर्योरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करने का प्रस्ताव करती. है जिसमें 30 शितम्बर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में गरित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम झाप परिवर्तन की पृष्टि की मांग की जाती है ताकि कंपनी को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम बनाया जा सक

में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपण पत्र जिसमें जनके हित का प्रकार और उसके विशेष का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपि क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सुवना के प्रकाशन की तारीखा से 14 दिनों के मीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पर्त पर पंजीकृत जीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कत्ते आवेदक की ओर एम्पल होटल्स एड रिसॉटर्स प्राईवेट लिमिटेड

"प्रपन्न सं. आईएनसी-26" (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष चत्तरी क्षेत्र भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधार (4) और धादा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम

फायर स्टेशन, दरियागंज नई दिल्ली-110002 र स्थित है

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण र पदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को चनके नीचे वर्णित 4637 / XI, ऑफिस नं. 316, सीसरा पतोर, हरी सदन

अंसारी रोड, नियर फायर स्टेशन, दरियागंज नई

दिनांक : 07.11.2025 निवेशक

"प्रपन्न सं. आईएनसी-26" (कंपनी (निममन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष जत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, द्वितीय तल, मंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम.

2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

"प्रपन्न सं. आईएनसी—26"

(4) और धारा (ए) के मानले में कंपनी (निगमन) नियम

2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

मैसर्स श्री शिव शक्ति परिधान प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : शॉप नं एलजी-14,

लॉवर ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. ४, रोड नं...४४, कम्युनिटी

भाम जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी

अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों

की घारा 12 और 13 और अन्य लागु प्रावधनों, यदि

कोई हो, के तहत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

त्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली

को आवेदन करने का प्रस्ताव करती, है जिसमें 30

सतम्बर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में

पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम झापन

में परिवर्तन की पृष्टि की मांग की जाती है ताकि

कंपनी को "सष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा

राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित ख्वानांतरण र

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह

व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर

कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)

में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शमध

जिसमें जनके हित का प्रकार और उसके विरोध

का कारण उहिलखित हो के साथ अपनी आपति

क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सुवना के प्रकाशन।

की तारीख से 14 दिनों के मीतर थी-2 विंग, हितीय

ाल, पंडित वीनदयाल अस्योदय भवन, सीजीओ

कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत

ठाक देवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और

इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे वर्णित

शॉप नं एलजी—14, लॉवर ग्राउंड पलोर, प्लॉट नं

4, रोड नं-44, कन्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा,

दिल्ली-110034

की शिव शवित पेरिधान प्राईवेट लिमिटेड

कृत्ते आवेदक की ओर से

डीआईएन : 00396328

हस्ता /

(दयवनंद सिंह)

निदेशक

वंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

दिनांक : 07.11.2025

ल्यानः विल्ली

बनाया जा सकें।

सेन्टर, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में स्थित है

मैसर्स आधार दर्स एण्ड टैवल्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : शॉप नं. ३१, एम2वें मॉल, 16 मंगलेम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सॅटर, सेक्टर-3 वेडिणी, दिल्ली-110085 में स्थित है

प्राम जनता को सुधित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की धारा 12 और 13 और अन्य लागू प्रावधनों, यदि कोई हो, के तहत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली ने आवेदन करने का प्रस्ताव करती. है जिसमें 30 ग़रित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम जापन ने परिवर्तन की पृष्टि की मांग की जाती है ताकि कंपनी को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण र यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह यवित या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप भर** कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें जनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निवेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के मीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय नवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकर डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके नीचे वर्णित ioligan कार्यालय के पत पर मी भेजेगा।

शॉप नं. 31. एम2के मॉल. 16 मंगलम प्लेस, डिस्टिक्ट सॅटर, संगदर-3, रोडिणी, दिल्ली-110085 कृते आवेदक की ओर आधार टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेर

दिनाक : 07.11.2025

भवन. सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधार

(4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम.

2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

मैसर्स दिलसे इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 302, ढाका चैम्बर,

38/2068, नाईवाला, करोल बाग, दिल्ली-110005

शम जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी

प्रिविनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों

की घारा 12 और 13 और अन्य लागू प्रावधनों, यदि

कोई हो के तहत केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक

चत्तरी क्षेत्र, कॉपीरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली

को आवेदन करने का प्रस्ताव करती. है जिसमें 25

सितम्बर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में

पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन

में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की जाती है ताकि

कंपनी को 'राष्ट्रीय राजवानी क्षेत्र दिल्ली' से 'इरिवाणा

राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण सं

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह

कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)

में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ

यय जिलमें उनके दिव का प्रकार और उसके विशेध

का कारण चिलितिखत हो के साथ अपनी आपत्ति

क्षेत्रीय निर्देशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन

की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय

तल, पंडित दीनदराल अत्योदय भवन, सीजीओ

कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत

डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है औ

इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे वर्णित

302, वाका बैम्बर, 38 / 2068, नाईवाला,

वारोल बाग, दिल्ली-110005

कृतो आवेदक की ओर से।

(गोलम कुमार मरतिया)

बीआईएन : 00410238

दिल्सो इन्बेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेर

पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

दिशांका : 07.11.2025

थान : दिल्ली

वित या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप भर**

(गोपालकष्णन टी.वी.) निदेशव स्थान : दिल्ली डीआइंएन : 02814134

"प्रपत्र सं. आईएनसी—26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंमनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपचारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

जेजी-3-159ए, विकास पुरी, नई दिल्ली- 110018

दिनाँक: 04-11-2025

स्थान : नई दिल्ली

मैसर्स सच रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड जसका पंजीकृत कार्यालय : शॉप नं, 31, एम2वं मॉल, 16 मंगलम प्लेस, डिरिट्स्स्ट सॅटर, सेक्टर-3 रोहिणी, दिल्ली—110085 में रिधत है

आम जनता को सुधित किया जाता है कि कंपनें अधिनियम्, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम की धारा 12 और 13 और अन्य लागू प्रावधनों, यदि कोई हो के तहत केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, कॉफॉरेट मामलॉ के मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करने का प्रस्ताव करती, है जिसमें 25 पारित विशेष प्रश्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम जापन में परिवर्तन की पृष्टि की मांग की जाती है ताकि कंपनी को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाण राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम

कंपनी के पंजीकत कार्यक्रम के प्रस्तावित स्थानांतरण र यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शप क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल. पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीअ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकत बाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

शॉप न 31 एम2के मील 16 मंगलम प्लेस डिस्टिक्ट सेंटर, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085 क़त्ते आवेदक की ओर र सच रियल्डर्स प्राईवेट लिमिटेर

हसता / (उत्सव अग्रवाल ढीआईएन : 08140335 "प्रपन्न सं. आईएनसी-26"

(कंबनी (निगमन) नियम् 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, बी-2 बिंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन. सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की जपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6)

मैसर्स जैनको फिनलीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 301, डाका चैम्बर

2068 / 39, नाईवाला, करोल बाग, दिल्ली-110005 में स्थित है आम जनता को सुधित किया जाता है कि कंपनी

अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की धारा 12 और 13 और अन्य लाग् प्रावधनों, यदि कोई हो, के तहत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निवेधक, छत्तरी क्षेत्र, कॉपॉरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करने का प्रस्ताव करती, है जिसमें 25 निम्बर 2025 का आयाजित वार्षक आम् बेठक पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम आप में परिवर्तन की पृष्टि की मांग की जाली है ताकि कंपनी को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य' में अपना पंजीकत कार्यालय बदलने में सक्षम कंपनी के पंजीवृत्त कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शप का कारण उठिलखित हो के साथ अपनी आपि क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सुचना के प्रकाश-की तारीख़ से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, हितीय तल, पंजित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 पते पर पंजीकृत हाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आयेदक कंपनी को उनके नीचे वर्णित रेतीकत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। 301, द्राका चैम्बर, 2068/39, नाईवाला,

करोल बाग, विल्ली-110005 कृत्ते आवेदक की अर्र जैनको फिनलीज एंड इन्बेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेर (हरीश पार्ड

निदेश दिनाक : 07.11.2025 ख्यान : दिल्ली डीआईएन : 07104452

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



&FINANCIAL EXPRESS

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank शाखा हुसैनपुर बोपारा, ग्राम और डाक हुसैनपुर बोपारा, मुजफ्फरनगर, मोबाईल: 8928625792 एतदुद्वारा आम जनता को 07.11.2025 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना के

विज्ञापन के संदर्भ में सूचित किया जाता है। मैसर्स इंडिया टेडर्स के मामले में, मांग सुचना की तारीख को 14.08.2025 के बजाय 19.08.2025 बाकी सब अपरिवर्तित रहेगा।

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



FUSION FINANCE LIMITED (Formerly Fusion Micro Finance Limited)

Registered Office: H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi, 110028, India

Corporate Office: Plot No. 86, Institutional Sector 32, Gurugram, Haryana 122001, India | Tel: +91- 011-46646600/ +91-124-6910500 Contact Person: Vikrant Sadana, Company Secretary and Compliance Officer E-mail: investor.relations@fusionfin.com | Website: www.fusionfin.com Corporate Identity Number: L65100DL1994PLC061287

NOTICE FOR RECORD DATE FOR FIRST AND FINAL CALL ON PARTLY PAID-UP RIGHTS EQUITY SHARES OF THE COMPANY

The Board of Directors of the Company ('the Board') at its meeting held on Tuesday, November 04, 2025, has approved making of the first and final call of ₹ 65.50 per equity share (comprising ₹5.00 towards face value and ₹60.50 towards premium) ("First and Final Call"), on outstanding partly paid-up equity shares of face value of ₹10 each, issued by the Company on a rights basis. pursuant to its Letter of Offer dated March 29, 2025.

The Board has fixed Tuesday, November 11, 2025, as the record date for the purpose of determining the holders of such partly paid-up equity shares having ISIN IN9139R01028 to whom the First and Final Call notice will be sent. The intimation of the said Record date has also been disseminated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed.

Further, details in relation to the First and Final Call, will be included in the First and Final Call notice, which will be dispatched in due course.

For, FUSION FINANCE LIMITED (Formerly Fusion Micro Finance Limited)

Date: November 7, 2025 Place: Gurugram

Vikrant Sadana Company Secretary and Compliance Officer

जीवीपी इन्फोटेक लिमिटेड

(पूर्व में फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से विदित) पंजीकृत कार्यालय संख्या 710, नौरंग हाउस, कस्तूरबा गांधी (केजी) मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, नई दिल्ली, विल्ली, भारत, 110001, ईमेल : secretarial@gvpinfotech.com, वेबसाइट : www.gvpinfotech.com, सीआईएन : L74110DL2011 PLC221111

30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के पृथक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाओं का साराँश

कंपनी के निदेशक मंडल ने शुक्रवार 7 नवंबर 2025 को आयोजित बैठक में 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का अनुमोदन किया है। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी की वेबसाइट https://gvpinfotech.com/investor-relations/financial-information-including/f ਧਰ अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें यहां दिये गये क्युआर कोड को स्कैन करके देखा जा

सकता है। बोर्ड के आदेशानुसार कृते जीवीपी इन्फोटेक लिमिटेड

(पूर्व में फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से विदित) स्थान : नई दिल्ली दिनाँक : 07-11-2025

नोट: उपरोक्त सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2018 की धारा 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार है।



हस्ता. 🖊 -धवल मिस्त्री निदेशक डीआईएन : 03411290

(Rs. In lacs)

CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED

Regd Office: A-2, OPP. UDOYG BHAWAN, TILAK MARG, C-SCHEME, JAIPUR RAJASTHAN 302005

CIN: L23201RJ1986PLC003704 • Email: cs.conpetco@gmail.com; conpetco@gmail.com • Website: www.contol.in • Phone No: 0141-2222232 EXTRACT OF CONSOLIDATED & STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2025

		S 55	CONSOL	IDATED	W		STANDALONE			1		
Particulars	3 months Ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 Months ended in previous year	6 Months Ended	Corresponding 6 months ended in previous year	Previous Year ended	3 months Ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 Months ended in previous year	6 Months Ended	Corresponding 6 months ended in previous year	Previous Year ended
	30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025	30-09-2024	31-03-2025	30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025	30-09-2024	31-03-2025
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period	2431.57	1862.84	2144.57	4294.41	5683.43	11880.53	2409.03	1840.56	2144.57	4249.59	5683.43	11290,7
(before tax, Exceptional and/ or extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	155.32	93.19	186.69	248.52	372.11	626.76	154.43	92.56	186.69	247	372.11	597.05
(after Exceptional and/ or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	155.32	93.19	186.69	248.52	372.11	626.76	154.43	92.56	186.69	247	372.11	597.05
(after Exceptional and/ or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other	108.45	62,13	129.9	170.59	258.83	456.19	107.82	61.7	129.9	169.53	258.83	430.95
Comprehensive Income (after tax)	108.45	62.13	129.9	170.59	258.83	456.19	107.82	61.7	129.9	169.53	258.83	430.95
Equity Share Capital(Face value per Share Rs.5/- per Share Reserve excluding Revaluation Reserve Earnings Per Share	423.39	278.03	278,03	423.39	278.03	278.03	423,39	278.03	278,03	423.39	278.03	278.03
Basic	1.28	1.12	2.34	2.01	4.65	8.20	1.27	1.11	2.34	2.0	4.65	7.75
Diluted:	1.28	1.12	2.34	2.01	4.65	8.20	1.27	1.11	2.34	2.0	4.65	7,75

Note: (1) The above Unaudited Financial Results of the company for the guarter ended September 30th, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and on its recommendation, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 07 November 2025 (2) The Company has business segment 'Lubricants & Grease Manufacturing & Distribution, Incineration Service, Turnkey Projects (3) Figures in respect of the previous year/period have been rearranged (regrouped wherever necessary to correspond with the figures of the current year/period (4) The financial Result are prepared in accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) as prescribed under section 133 of the companies act 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable and in terms of

Madan Lal Khandelwal (Chairman & Managing Director)

Place: Jaipur Date: 07.11.2025

epaper.jansatta.com

Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations 2015 and SEBI circular dated 5 July, 2016

4.65

7.75

DIN: 00414717

For CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED